



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 25, 2008/फाल्गुन 6, 1929

No. 84]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 25, 2008/PHALGUNA 6, 1929

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 106(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें केन्द्रीय सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श के पश्चात् बनाना चाहती है, उक्त उप-धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियाँ, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव यदि कोई हो, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकेंगे;

ऐसे आक्षेप और सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

## प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (.....संशोधन) नियम, 2008 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के परिशिष्ट-ख में, धान चोकर तेल से संबंधित मद क. 17.23 "असाबुनीकरण पदार्थ ..... का भार में प्रतिशत 3.5 से अनधिक" शब्द और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-  
"असाबुनीकरण पदार्थ :-  
(i) रसायनिक रूप से परिष्कृत ..... 3.5 प्रतिशत से अनधिक  
(ii) भौतिक रूप से परिष्कृत ..... 4.5 प्रतिशत से अनधिक  
ओरीजनोल अंतर्विष्ट ..... 1.0 प्रतिशत से अन्यून"

[फा. सं. पी. 15014/28/2007.-पी.एच.(एफ)]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, में का.नि.आ. 2106 तारीख 12 सितम्बर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 707(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2007 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2008

**G.S.R. 106(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), is hereby published, as required by the said sub-section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public ;

Objections or suggestions, if any, may be forwarded to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.

The objections or suggestions, which may be received from any person, with respect to the said draft rules, before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

## DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (.....Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in Appendix-B, in item A. 17.23 relating to Rice Bran Oil, for the words and figures “Unsaponifiable matter.....Not more than 3.5 per cent”, the following shall be substituted, namely :—

“Unsaponifiable matter—

(i) for chemically refined-----Not more than 3.5 per cent

(ii) for physically refined-----Not more than 4.5 per cent

Oryzanol content----- Not less than 1.0 per cent.”

[F. No. P. 15014/28/2007-PH (Food)]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.

**Note :** The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part-II, Section 3 of Gazette of India, *vide* number S.R.O. 2106, dated the 12th September, 1955 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 707(E), dated 12-11-2007.